



20 नवम्बर 2023

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने तेल वर्ष 2021-22 के दौरान 140.3 लाख टन के मुकाबले भारत ने तेल वर्ष 2022-23 (नवंबर से अक्टूबर) के दौरान 164.7 लाख टन खद्य तेल का आयात किया, जो 17.39 प्रतिशत की वृद्धि है।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में भारत की प्रमुख खुदरा मुद्रास्फीति दर गिरकर 4.87 प्रतिशत हो गई।
- अक्टूबर में अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन में अनुमान से अधिक गिरावट हुई। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने एक बयान में घोषणा की है कि अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन सितंबर में संशोधित 0.1% की वृद्धि की तुलना में अक्टूबर में 0.6% कम हो गया।
- अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, चीनी खरीद में वृद्धि के बाद, पिछले सप्ताह 3.9 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक की साप्ताहिक अमेरिकी सोयाबीन निर्यात बिक्री 2012 के बाद से सबसे अधिक बिक्री है।
- अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ने 2022-23 सीजन में विश्व स्तर पर चीनी उत्पादन 179.89 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया है, जबकि इसने कम आयात मांग और निर्यात उपलब्धता का अनुमान लगाया है।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ल्योहारी मांग के कारण सोने का आयात बढ़ने से अक्टूबर में भारत का व्यापार घाटा 31.46 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस बीच, अक्टूबर में भारत का व्यापारिक निर्यात 6.21 प्रतिशत बढ़कर 33.57 अरब डॉलर हो गया।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के लिए भारत के बासमती चावल के निर्यात में मूल्य के संदर्भ में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज किए गए 2.27 बिलियन डॉलर से 2.59 बिलियन डॉलर अधिक है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के बेहतर उत्पादन आउटलुक से उत्साहित होकर, अंतर्राष्ट्रीय अनाज परिषद ने 2023/24 के वैश्विक स्तर पर मक्का उत्पादन के लिए अपने पूर्वानुमान को 4 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ाकर 1.223 बिलियन टन कर दिया।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	10.11.23	16.11.23	बदलाव (%)
गुड़	1248.50	1317.50	5.53%
धान	4209.00	4404.00	4.63%
धनिया	7466.00	7810.00	4.61%
कॉटनऑयलसीडकेक	2860.00	2948.00	3.08%
कैस्टरसीड	5945.00	6121.00	2.96%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	10.11.23	16.11.23	बदलाव (%)
जीरा	43700.00	42175.00	-3.49%
बाजरा	2255.00	2232.00	-1.02%
हल्दी	13510.00	13420.00	-0.67%
सीसेमसीड	18540.00	18515.00	-0.13%
जौ	2154.50	2152.00	-0.12%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	10.11.23	16.11.23	बदलाव (%)
सोना	59659.00	60722.00	1.78%
मेंथा ऑयल	907.80	922.80	1.65%
लेड	186.75	189.70	1.58%
सोना पेटल	5938.00	6002.00	1.08%
कच्चा तेल	6372.00	6424.00	0.82%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	10.11.23	16.11.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	291.40	270.10	-7.31%
निकल	1531.90	1502.50	-1.92%
एल्युमीनियम	206.55	206.10	-0.22%

साप्ताहिक समीक्षा

डॉलर इंडेक्स में उल्लेखनीय गिरावट के बावजूद सीआरबी इंडेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई, जो 314 के करीब बंद हुआ। 2024 में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद के कारण डॉलर इंडेक्स 106 से गिरकर 104 पर आ गया। सीएम्ई के फेड वॉच टूल के अनुसार, मंगलवार को अमेरिकी वायदा में अगले साल मई तक दर में कटौती की संभावना सोमवार के 34% की तुलना में 65% थी। सोने की कीमतों में उल्लेखनीय उछाल आया, लेकिन चांदी की कीमतों ने अधिक ताकत दिखाई, जो 69,053 के निचले स्तर से बढ़कर 73,300 से अधिक हो गई। सोने की कीमतें एक बार फिर से 60,000 के स्तर को पार कर गईं। अमेरिका में मुद्रास्फीति के धीमी रहने के आंकड़ों के बाद कमजोर अमेरिकी डॉलर और बांड यील्ड के समर्थन से सोने की कीमतों में बढ़ाव देखा गया, जिससे इस विचार को बल मिला कि फेडरल रिजर्व ने अपने दर-वृद्धि अभियान को पूरा कर लिया है। चांदी ने सोने से बेहतर प्रदर्शन किया है, इसका कारण औद्योगिक मांग को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण और जलवायु तटस्थता की दिशा में अर्थव्यवस्था में चल रहे बदलाव हैं, जिसमें चांदी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चीन में मंदी के प्रभाव से कच्चे तेल के भंडार में वृद्धि के कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी आई। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार, अमेरिकी कच्चे तेल का स्टॉक पिछले सप्ताह 3.6 मिलियन बैरल बढ़कर 421.9 मिलियन बैरल हो गया, जो विश्लेषकों की अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। नेचुरल गैस वायदा में मामूली सुधार हुआ। नैटगैसवेदर का पूर्वानुमान है कि 16-22 नवंबर के दौरान अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्म स्थिति होगी, जिसके बाद मध्यपश्चिम और पूर्वोत्तर में ठंडे तापमान में बदलाव आएगा। इस बदलाव से देश के अन्य हिस्सों में लगातार गर्म परिस्थितियों के कारण नेचुरल गैस की मौसमी मांग बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। बेस मेटल में तांबे की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई, जबकि लेड और जिंक की कीमतों ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण एल्युमीनियम की कीमतों में बढ़त सीमित रही।

कृषि क्षेत्र में, भौतिक बाजार में उभरती मांग के कारण अरंडी की कीमतों में लगातार दूसरे सप्ताह वृद्धि दर्ज की गई। अरंडी की घटती आपूर्ति और अरंडी मील की बढ़ती निर्यात मांग से कीमतों में मजबूती को समर्थन मिल रहा है। कॉटनकैडी वायदा की कीमतों में थोड़ी बढ़ाव देखा गया और इसके डेरिवेटिव, कॉटनऑयलसीड केक वायदा की कीमतों को समर्थन मिला और यह बढ़त के साथ बंद हुआ। मांग संबंधी चिंताओं के कारण ग्वार की कीमतों में गिरावट हुई। ग्वारगम की कम मांग और ग्वारमिल के विकल्प की बढ़ती उपलब्धता के कारण ग्वारसीड की पेराई गतिविधियों में गिरावट आई है और यह ग्वारसीड की कीमतों में गिरावट के रूप में परिलक्षित हुआ है। मसाला बाजार में, जीरा और धनिया की कीमतों ने पोर्टफोलियो में सकारात्मक योगदान दिया है जबकि भौतिक बाजार में सुस्त खरीदारी के कारण हल्दी की कीमतों में उच्च स्तर से गिरावट देखी गई। बेहतर उपज और कम घरेलू मांग के कारण कीमतों पर असर पड़ा। भौतिक बाजार में जरूरत के मुताबिक खरीदारी हो रही है और अक्टूबर में शुष्क मौसम की स्थिति के कारण धनिया के तहत उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की उम्मीद वर्ष 2023 में अब तक धीमी है, लेकिन आने वाले दिनों में सुधार की उम्मीद है क्योंकि मौसम की स्थिति बुवाई की प्रगति के लिए अनुकूल होने की संभावना है। पिछले वर्ष के 32210 हेक्टेयर की तुलना में 16 नवंबर तक गुजरात में केवल 4599 हेक्टेयर में धनिया की बुवाई हुई है।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	10.11.2023	16.11.2023	बदलाव(%)
जौ	जयपुर	2,150.00	2,150.00	0.00%
चना	दिल्ली	6400.00	6499.20	1.55%
धनिया	कोटा	7446.95	7446.95	0.00%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	787.30	809.30	2.79%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1302.15	1316.40	1.09%
ग्वारसीड	जोधपुर	5632.85	5802.75	3.02%
ग्वारगम	जोधपुर	11403.50	11860.05	4.00%
जीरा	ऊझा	45429.80	45429.80	0.00%
सरसों	जयपुर	5820.70	5950.10	2.22%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	930.00	975.00	4.84%
सोयाबीन	इंदौर	5242.90	5441.05	3.78%
हल्दी	निजामाबाद	13445.65	13551.95	0.79%
गेहूं	दिल्ली	2748.10	2724.35	-0.86%
कॉटन	कड़ी	27010.70	27249.70	0.88%
कॉटनऑयलसीडकेक	अकोला	2700.00	2716.40	0.61%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	10.11.2023	16.11.2023	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2215.00	2215.50	0.02%
तांबा	LME	नकद	8035.50	8220.00	2.30%
लेड	LME	नकद	2180.00	2283.00	4.72%
निकल	LME	नकद	17257.00	17020.00	-1.37%
जिंक	LME	नकद	2562.00	2576.00	0.55%
सोना	COMEX	दिसम्बर	1948.00	1997.70	2.55%
चांदी	COMEX	दिसम्बर	22.28	23.93	7.41%
लाइट क्रूड	NYMEX	दिसम्बर	77.17	72.90	-5.53%
नेचुरल गैस	NYMEX	दिसम्बर	3.03	3.06	0.96%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	10.11.2023	16.11.2023	बदलाव(%)
सोयाबीन	CBOT	जनवरी	13.60	13.86	1.91%
सोया तेल	CBOT	दिसम्बर	50.55	50.84	0.57%
कॉटन	ICE	दिसम्बर	77.32	78.68	1.76%
सीपीओ	BMD	जनवरी	3,802.00	3,998.00	5.16%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	09.10.2023 क्वांटिटी	16.11.2023 क्वांटिटी	अंतर
कॉटन	मी.टन	24248	24163	-85
बाजरा	मी.टन	754	754	0
मक्का	मी.टन	0	0	0
कैस्टर सीड	मी.टन	8823	11065	2242
चना	मी.टन	9583	9873	290
धनिया	मी.टन	0	0	0
कॉटनऑयलसीडकेक	मी.टन	21249	21355	106
ग्वारगम	मी.टन	19895	15767	-4128
ग्वारसीड	मी.टन	15	15	0
जीरा	मी.टन	1960	2604	644
मक्का	मी.टन	0	0	0
स्टील लॉन	मी.टन	422	422	0
हल्दी	मी.टन	2387	2297	-90

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	10.11.2023 क्वांटिटी	16.11.2023 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	962	962	0
तांबा	मी.टन	3552856	3502651	-50205
सोना	किग्रा	412	401	-11
सोना मिनी	किग्रा	2464	2464	0
सोना गिनी	किग्रा	68000	68000	0
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	91399	92419	1020
चांदी एम	किग्रा	36358	36358	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 10.11.2023	स्टॉक की स्थिति 16.11.2023	अंतर
एल्युमीनियम	479650	483800	4150.00
तांबा	179925	181950	2025.00
निकल	43374	44262	888.00
लेड	135300	135925	625.00
जिंक	69225	133200	63975.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	काट्रेक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	दिसम्बर	42590.00	10.10.23	मंदी	58000.00	-	46070.00	46150.00
NCDEX	हल्दी	दिसम्बर	13420.00	20.09.23	मंदी	15000.00	-	14300.00	14350.00
NCDEX	ग्वारसीड	दिसम्बर	5851.00	05.10.23	तेजी	5500.00	5570.00	-	5550.00
NCDEX	कैस्टरसीड	दिसम्बर	5936.00	14.09.23	मंदी	6300.00	-	6030.00	6050.00
NCDEX	स्टील लांग	दिसम्बर	44560.00	27.09.23	मंदी	46300.00	-	45800.00	46000.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	दिसम्बर	2948.00	02.08.23	तेजी	2400.00	2750.00	-	2700.00
MCX	मेंथा ऑयल	नवम्बर	914.50	27.09.23	मंदी	930.00	-	958.00	860.00
MCX	बुलडेक्स	नवम्बर	16033.00	10.10.23	तेजी	15000.00	15630.00	-	15600.00
MCX	चांदी	दिसम्बर	73360.00	10.10.23	तेजी	69000.00	69050.00	-	69000.00
MCX	सोना	दिसम्बर	60722.00	10.10.23	तेजी	57500.00	59450.00	-	59400.00
MCX	तांबा	नवम्बर	708.35	01.11.23	तेजी	707.00	689.00	-	685.00
MCX	लेड	नवम्बर	189.70	01.11.23	तेजी	185.00	183.00	-	182.00
MCX	जिंक	नवम्बर	228.20	01.11.23	तेजी	220.00	216.00	-	215.00
MCX	एल्युमिनियम	नवम्बर	204.30	01.11.23	तेजी	206.00	196.00	-	195.00
MCX	कच्चा तेल	दिसम्बर	6072.00	01.11.23	मंदी	6800.00	-	6670.00	6700.00
MCX	नेचुरल गैस	नवम्बर	254.50	01.11.23	तेजी	290.00	235.00	-	233.00

*16/11/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में मजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

कच्चा तेल (दिसम्बर) एमसीएक्स



कच्चा तेल (दिसम्बर) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 7375.00

निचला स्तर: 6056.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 16 नवम्बर 2023 को 6072.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6497.33 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 28.59 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6380.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 5770.00 ₹ के टारगेट के लिए 6220.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

हल्दी (दिसम्बर) एनसीडीईएक्स



हल्दी (दिसम्बर) एनसीडीईएक्स


उच्च स्तर: 18738.00

निचला स्तर: 12616.00

एनसीडीईएक्स में हल्दी (दिसम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 16 नवम्बर 2023 को 13420.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 13506.102 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 24.526 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

13850.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 12250.00 ₹ के टारगेट के लिए 13250.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

लेड (नवम्बर) एमसीएक्स



लेड (नवम्बर) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 190.20

निचला स्तर: 184.05

एमसीएक्स में लेड (नवम्बर) कॉन्ट्रैक्ट 16 नवम्बर 2023 को 189.70 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 187.63 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 82.968 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

182.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 195.00 ₹ के टारगेट के लिए 186.00 ₹ के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

हल्दी की कीमतों में गिरावट जारी रही क्योंकि महाराष्ट्र और तेलंगाना में फसल की स्थिति में सुधार के कारण कारोबारियों ने अपनी लांग पोजिशन कम कर दी। माँग को लेकर चिंताओं के कारण बिकवाली का दबाव बढ़ गया क्योंकि स्टॉक और मिल भारी भरकम अंतिम स्टॉक के मद्देनजर थोक खरीद से दूर रहे। नई फसल के मौसम से पहले स्टॉक के बाजार में जारी होने की उम्मीद है जिससे कीमतें नीचे रहेंगी। बाजार में गुणवत्तापूर्ण उपज की कम उपलब्धता के कारण हाजिर कीमतें वायदा कीमतों से 700 रुपये प्रति क्विंटल के प्रीमियम पर चल रही हैं। मुख्य फोकस फसल की प्रगति पर है जो प्रमुख उत्पादक राज्यों में अक्टूबर में सामान्य से अधिक शुष्क मौसम का सामना करने के बावजूद संतोषजनक रहा है, लेकिन सूखा मौसम बढ़ने से कीमतों में शॉर्ट कवरेज हो सकती है। वर्ष 2023 में हल्दी का रकबा पहले ही 10% कम हो चुका है, जिससे कुल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चालू वर्ष (2023-24) के 10.45 लाख टन के उत्पादन की तुलना में कुल उत्पादन कम रहने की संभावना है। हल्दी के तहत कम रकबा के मद्देनजर ऐसा लगता है कि वर्ष 2024-25 के लिए कुल उत्पादन में कम से कम 8% -10% गिरावट होने की संभावना है। अप्रैल-23-अगस्त-23 का समय अवधि के दौरान हल्दी का कुल निर्यात साल-दर-साल 16.2% अधिक रहा है और मौसम के अनुसार निर्यात में आगे भी वृद्धि होने की उम्मीद है। इस हफ्ते में हल्दी की कीमतों के 11700 -14900 के दायरे में रहने की संभावना है।

माँग को लेकर चिंताओं के कारण पिछले सप्ताह जीरा की कीमतों में गिरावट जारी रही। नई फसल सीजन से पहले स्टॉक अपना स्टॉक जारी करेंगे, इस कारण खरीदारी गतिविधियाँ सुस्त रहीं। सूट बाजी और जमाखोरी ने वर्ष 2023 में जीरा की कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा दिया, लेकिन निर्यात में सुस्ती के कारण कीमतें रिकॉर्ड स्तर से 22000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक गिर गई हैं। अप्रैल-23-अगस्त-23 के दौरान जीरा के कुल निर्यात में साल-दर-साल 26% की गिरावट हुई है। आगे चलकर, बाजार की नजर बुआई गतिविधियों पर रहने की संभावना है जो आने वाले हफ्तों में बढ़ने की उम्मीद है। अक्टूबर-23 में प्रतिकूल मौसम के कारण बुआई गतिविधियाँ धीमी हो गई हैं क्योंकि गुजरात में 16 नवंबर-23 तक केवल 7615 हेक्टेयर में जीरा की बुआई हुई है जबकि पिछले वर्ष 28592 हेक्टेयर में बुआई की गई थी। खेतों की लागत पर बेहतर मुनाफा और मौसम की अनुकूल स्थिति के कारण बुआई गतिविधियों से बाजार के सेंटोमेंट पर असर पड़ सकता है। निकट भविष्य में जीरा की कीमतों के 38500-51500 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

धनिया की कीमतों में गिरावट देखी गई लेकिन गुजरात में धीमी बुआई प्रगति की रिपोर्टों के कारण धनिया की कीमतों में गिरावट सीमित हो गई। बढ़ते निर्यात और निराशाजनक वैश्विक आपूर्ति की रिपोर्टों ने स्टॉक को धनिया में ताजा खरीदारी के लिए आकर्षित किया। गुजरात में देरी से बुआई के कारण वर्ष 2023 में अब तक बुआई गतिविधियाँ धीमी हैं क्योंकि 16 नवंबर तक गुजरात में धनिया के तहत केवल 4599 हेक्टेयर में बुआई हुई है जबकि पिछले वर्ष 32210 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। मजबूत निर्यात माँग से कीमतों को समर्थन मिलेगा। भारत ने पिछले वर्ष के 2.6 हजार टन के मुकाबले अगस्त-23 में लगभग 6.2 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जबकि अप्रैल-23-अगस्त-23 के दौरान कुल निर्यात 81.3 हजार टन दर्ज किया गया, जो साल-दर-साल 268% अधिक है। धनिया की कीमतों के 7500-8780 के दायरे में रहने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

प्रमुख उत्पादक राज्यों में कटाई गतिविधियों में तेजी आने के कारण आवक के बढ़ते दबाव से कपास की कीमतों में गिरावट बढ़ गई। कटाई के लिए मौसम की स्थिति अनुकूल है जिससे बाजार में नई फसल की आपूर्ति बढ़ेगी। वर्ष 2023-24 में 16 नवंबर तक कपास की कुल आवक 32.47 लाख गांठ तक पहुँच गई है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में कम है। कपास उत्पादन और उपभोग समिति ने अनुमान लगाया है कि चालू सीजन (अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024) में कपास का उत्पादन 316.57 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम) होगा, जबकि 2022-2023 में 336.60 लाख गांठ होगा। कपास के कम उत्पादन के अनुमान से कीमतों में होने वाले अत्यधिक नुकसान पर अंकुश लगेगा। कपड़ा मिलों द्वारा कुल खपत 294 लाख गांठ होने की उम्मीद है, जो पिछले सीजन में 295 लाख गांठ थी। निर्यात 25 लाख गांठ और आयात 12 लाख गांठ रहने की संभावना है। एमसीएक्स पर कॉटन (नवम्बर) की कीमतों के 55500-60000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास (अप्रैल-24) वायदा की कीमतों में 1530-1620 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

इसी तरह, बाजार में वैकल्पिक भोजन की उपलब्धता बढ़ने से कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में गिरावट की संभावना है। आपूर्ति की बेहतर संभावनाओं से कीमतों पर असर पड़ेगा। कॉटनसीडऑयलकेक की कीमतों के 2720-3050 के दायरे में रहने की उम्मीद है।

बाजार में आपूर्ति कम होने के साथ शॉर्ट कवरेज के कारण ग्वार सीड वायदा में तेजी दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के अनुरूप ग्वारगम के निर्यात की संभावनाएं कम होने से ग्वारसीड में बढ़त अस्थायी दिख रही है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार कमजोरी ने ग्वारगम के निर्यात के अवसरों को बाधित कर दिया है जिससे ग्वारसीड की कीमतों पर भी दबाव पड़ेगा। ग्वार की कीमतों का कच्चे तेल की कीमतों के साथ अनुकूल संबंध होता है क्योंकि तेल ड्रिलिंग गतिविधियों के दौरान ग्वारगम का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन, पिछले साल की तुलना में ग्वार का कुल उत्पादन कम हुआ है जिससे गिरावट पर अंकुश लगेगा ग्वारगम और ग्वारमील की गिरती कीमतों के साथ मिल मालिकों के पैराई मार्जिन के अलावाकारती होने से मिलों की ओर से ग्वारसीड की कम खरीदारी हुई। बाजार में अन्य खाद्य विकल्पों की आपूर्ति बढ़ने से ग्वारखली की माँग कम हो गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सीमित खरीद के कारण अगस्त-23 में ग्वारगम का निर्यात माह-दर-माह 16% घटकर 17 हजार टन के करीब रह गया। ग्वारसीड की कीमतों को जल्द ही 5450 के करीब सपोर्ट मिल सकता है, जबकि रजिस्ट्रेस 6080 पर देखा जा सकता है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों को 10800 पर सपोर्ट रहने की संभावना है जबकि रजिस्ट्रेस 12700 पर देखा जा सकता है।

बाजार में सीमित उपलब्धता के मुकाबले खरीददारी में सुधार के कारण मंथा तेल की कीमतों के तेजी के रूझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। वर्ष 2023 में उत्पादन में गिरावट के साथ आपूर्ति में गिरावट हुई है और इससे आगू कीमतों की तेजी को मदद मिल सकती है। लेकिन मंथा ऑयल का सुस्त निर्यात अभी भी निर्यातकों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, जिससे बढ़त सीमित रह सकती है। भारत ने अप्रैल-23-अगस्त-23 के दौरान लगभग 692 टन मंथा तेल का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष के 886 टन की तुलना में यह 21% कम है। मंथा ऑयल (नवम्बर) वायदा की कीमतों को 890 के करीब सपोर्ट मिलने की संभावना है और 955 पर रजिस्ट्रेस रह सकता है।

बाजार में आपूर्ति कम होने के कारण अरंडी की कीमतें बढ़ने की संभावना है। अरंडीकेक के निर्यात में बढ़ोतरी की रिपोर्ट से कीमतों में मजबूती आने की संभावना है। अरंडी (दिसम्बर) वायदा की कीमतों के 5800-6300 के दायरे में रहने की संभावना है।

सर्पाफा

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी के संभावित निष्कर्ष पर निवेशकों का भरोसा बढ़ने से डॉलर और ट्रेजरी यील्ड दोनों पर दबाव पड़ने से सोने की कीमतों में तीन हफ्तों में पहली साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई। 10-वर्षीय ट्रेजरी नोटों पर यील्ड दो महीने के निचले स्तर के करीब पहुँच गई। अक्टूबर में अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक स्थिर रहा, जबकि मुख्य दर में 0.2% की मामूली वृद्धि देखी गई, जो उम्मीदों से कम थी। साथ ही, उत्पादक कीमतों में साढ़े तीन साल में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। इसने फेडरल रिजर्व को अपनी भविष्य की कार्रवाइयों के पूर्वानुमानों को लेकर पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही, बेंरोजगारी लाभ के लिए नए दावे दायर करने वाले अमेरिकियों की संख्या उम्मीदों से अधिक हो गई है, जो संभावित रूप से मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई में फेडरल रिजर्व को सहायता कर रही है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति अक्टूबर में अनुमान से अधिक धीमी हो गई, साथ ही अक्टूबर में सात महीनों में पहली बार अमेरिकी खुदरा बिक्री में गिरावट हुई, जो चौथी तिमाही की शुरुआत में धीमी माँग की ओर इशारा करती है, जिससे फेड द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद को अधिक बल मिला है। लेकिन, सैन फ्रांसिस्को फेड अध्यक्ष मैरी डेली ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में दर के बढ़ते चक्र पर जल्द ही रोक लगाने के खिलाफ चेतावनी दी। कॉमेक्स पर सोने की कीमतें 1930-2000 के दायरे में कारोबार करती रहीं और अगले रूझान के लिए कीमतों को इस दायरे को तोड़ना होगा। इसी तरह, चांदी की कीमतें 21.900 डॉलर से 24.600 डॉलर के दायरे में रहीं। आगे, सोने की कीमतें 59000-62000 के दायरे में कारोबार कर सकती है जबकि चांदी की कीमतों के 70500 से 75000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। ये घटनाक्रम कीमती धातु बाजार में नाजुक संतुलन को रेखांकित करते हैं, जहाँ आर्थिक संकेतक और फेडरल रिजर्व नीति की उम्मीदें सोने और चांदी की कीमतों को दिशा को प्रभावित कर सकती हैं।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

वैश्विक स्तर पर माँग को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण चार महीने के निचले स्तर पर पहुँचने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई है। दोनों प्रमुख तेल सूचकांकों ने पिछले चार हफ्तों में सामूहिक रूप से अपनी कीमतों का लगभग छठा हिस्सा खो दिया है, जो निरंतर मंदी का सेंटोमेंट दर्शाता है। ओपेक और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा चौथी तिमाही में आपूर्ति में कमी की भविष्यवाणी के बावजूद, हाल के प्रमुख वैश्विक आर्थिक आंकड़ों ने माँग के आउटलुक को पहले के अनुमान से अधिक कमजोर बताया है। इस सप्ताह तेल की कीमतों में गिरावट मुख्य रूप से अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में उल्लेखनीय वृद्धि और निरंतर रिकॉर्ड स्तर के उत्पादन के कारण हुई। विश्लेषकों का सुझाव है कि इस घटनाक्रम से दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देश में कमजोर माँग को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिससे बाजार में आशंकाएं बढ़ी हैं। कीमतों में मौजूदा गिरावट सऊदी अरब को 2024 तक तेल उत्पादन में कटौती बढ़ाने पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकती है। आने वाले हफ्तों में ओपेक के नीतिगत निर्णयों के बारे में संभावना बढ़ रही है, क्योंकि समूह की 26 नवंबर को विधान में बैठक होने वाली है। बाजार पर्यवेक्षकों को कीमतों में उछाल की उम्मीद है क्योंकि कीमतें अधिक बिकवाली के दायरे में प्रवेश कर गई हैं और कीमतें 5700 और 6300 के बीच कारोबार कर सकती है। इसके विपरीत, ऊर्जा सूचना प्रशासन के दो सप्ताह आंकड़ों के गैस भंडार में बढ़ोतरी की रिपोर्ट के बाद नेचुरल गैस वायदा की कीमतों में तेज गिरावट हुई। इस रिपोर्ट में 3 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 6 बिलियन क्यूबिक फीट की गिरावट भी शामिल है, जिसका कारण टंड थी, जिससे माँग बढ़ी। नेटगैसवैर.कॉम ने ईआईए रिपोर्ट को काफी मंदी वाला माना। अब नेचुरल गैस की कीमतों में दोनों तरफ से उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है, और कीमतों को 240 के करीब अपेक्षित सपोर्ट और 280 के करीब संभावित रजिस्ट्रेस रह सकता है, जो ऊर्जा बाजार में अंतर्निहित अस्थिरता को दर्शाता है।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें नरमी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार कर सकती हैं क्योंकि शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में मांग की चिंता से काउंटर पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन, शीर्ष उपभोक्ता चीन के सकारात्मक औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों ने सेंटीमेंट को बढ़ावा मिला है, लेकिन देश के संपत्ति क्षेत्र में कमजोरी और मजबूत डॉलर के कारण बहुत बाधित हुई है। अक्टूबर में चीन का औद्योगिक उत्पादन 4.6% बढ़ गया, जो 4.4% वृद्धि की आम सहमति से ऊपर है और अप्रैल के बाद से सबसे अधिक है। लेकिन इसके संकटग्रस्त संपत्ति क्षेत्र में कम उधारी लागत सहित घर खरीदारों के लिए समर्थन उपायों के बावजूद अभी तक कोई सार्थक सुधार नहीं हुआ है। तांबे की कीमतें 690-725 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। चीन में मांग को लेकर चिंताएँ, जहाँ वैश्विक तांबे की खपत का लगभग आधा हिस्सा खपत होता है, अक्टूबर में चौथे महीने में नए घर की कीमतों में गिरावट से प्रबल हुई थी। चीन के रिफाईंड तांबे का घरेलू उत्पादन बढ़ाना बाजार के लिए एक और बाधा है। जिनक की कीमतें 218-238 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एलएमई के आंकड़ों से पता चलता है कि महीनों से घटते स्टॉक के बाद बड़ी आवक के कारण सिंगापुर और मलेशिया में भंडारण सुविधाओं में 65,725 टन की आवक के बाद एलएमई द्वारा अनुमोदित गोदामों में जिनक का भंडार लगभग दोगुना होकर 133,200 मीट्रिक टन हो गया है। लेड की कीमतें 184-193 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। एल्युमीनियम की कीमतें 195-215 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, स्मेल्टरों के बढ़ते मुनाफे और घरेलू मांग के कारण, अक्टूबर में चीन में प्राथमिक एल्युमीनियम का उत्पादन कुल 3.62 मिलियन टन हो गया, जो एक साल पहले इसी महीने की तुलना में 6% अधिक है, जो एक रिकॉर्ड मासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। चीन में एल्युमीनियम खपत स्थिर बनी हुई है। स्टील लॉन (दिसंबर) के 43400-46000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है और कीमतों में बढ़त पर बिकवाली की रणनीति होनी चाहिए।

कच्चे तेल की मांग और आपूर्ति अपडेट

कच्चे तेल की कीमतें हाल के महीनों में गिरावट दर्ज की रही हैं और नवंबर 2023 में आधिकारिक तौर पर मंदी के बाजार में प्रवेश कर गईं। मंदी का बाजार बाजार में लंबे समय तक गिरावट की अवधि है, जिसे आम तौर पर हाल की ऊंचाई से 20% या उससे अधिक की गिरावट के रूप में परिभाषित किया जाता है। तेल की कीमतों को देखा जाय तो, 2023 की शुरुआत में अपने उच्चतम स्तर के बाद से कीमतों में 30% से अधिक की गिरावट हुई है।

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी की उम्मीदों को देखते हुए 2023 और 2024 के लिए अपने तेल मांग वृद्धि पूर्वानुमानों को संशोधित किया है।
- आईईए ने अपने 2023 के तेल मांग में वृद्धि के पूर्वानुमान को 2.4 मिलियन बैरल प्रति दिन तक समायोजित कर दिया है, जो ओपेक के 2.46 मिलियन बैरल प्रति दिन के पूर्वानुमान के करीब है। 2024 के लिए, आईईए ने मांग में वृद्धि के अनुमान 880,000 बैरल प्रति दिन से बढ़ाकर 930,000 बैरल प्रति दिन कर दिया है, जो अभी भी ओपेक के 2.25 मिलियन बैरल प्रति दिन के पूर्वानुमान से कम है।
- अक्टूबर में विश्व स्तर पर तेल उत्पादन 320,000 बैरल प्रति दिन बढ़कर 102 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया। अमेरिका और ब्राजील में तेल उत्पादन अनुमान से अधिक हो रहा है, जिससे 2023 में वैश्विक स्तर पर आपूर्ति 1.7 मिलियन बैरल प्रति दिन बढ़कर रिकॉर्ड 101.8 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गई है। 2024 में, गैर-ओपेक+ उत्पादक वैश्विक स्तर पर तेल उत्पादन में 1.6 मिलियन बैरल प्रति दिन की बढ़ोतरी करना जारी रखेंगे, जिससे विश्व स्तर पर कुल आपूर्ति 103.4 मिलियन बैरल प्रति दिन हो सकती है।
- आईईए का सुझाव है कि सद्यपि मांग में वृद्धि धीमी होने की उम्मीद है, लेकिन 2024 की शुरुआत में बाजार में सरप्लस तेल हो सकता है। आने वाले वर्ष में आर्थिक वृद्धि और तेल मांग में कूल मिलाकर कमी उम्मीद के बावजूद, लचीली अमेरिकी डिलीवरी और चीन में सितंबर में रिकॉर्ड-तोड़ मांग के कारण 2023 में तेल की कीमतों को मदद मिली है।
- सितंबर महीने में चीन में तेल की मांग बढ़कर 17.1 मिलियन बैरल प्रति दिन की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जो वैश्विक विकास को रेखांकित करती है। विश्व स्तर पर तेल की मांग में कुल 2.4 मिलियन बैरल प्रति दिन वृद्धि में से चीन का योगदान 1.8 मिलियन बैरल प्रति दिन है, जो 2023 में मांग को 102 मिलियन बैरल प्रति दिन तक बढ़ा देता है। लेकिन 2024 में कुल वृद्धि धीमी होकर 93 मिलियन बैरल प्रति दिन होने की उम्मीद है।
- इस बीच, शीर्ष तेल निर्यातकों सऊदी अरब और रूस ने नवंबर की शुरुआत में पुष्टि की है कि वे वर्ष के अंत तक अपने अतिरिक्त स्वैच्छिक उत्पादन में कटौती जारी रखेंगे। उन कटौतियों से साल के अंत तक तेल बाजार में भारी कमी बनी रहेगी, ओपेक+ गठबंधन अपने कच्चे तेल की मांग से 900,000 बैरल/दिन कम उत्पादन कर रहा है।
- आईईए के अनुसार, अक्टूबर की शुरुआत में इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध का तेल आपूर्ति प्रवाह पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा है। अक्टूबर के अंत में वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों में अस्थायी ढील से आपूर्ति पर केवल मामूली प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि देश के तेल क्षेत्र से उत्पादन बढ़ाने में समय और निवेश लगेगा।
- सितंबर में वैश्विक स्तर पर कुल भंडार में 9.9 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई, लेकिन यह ऐतिहासिक निचले स्तर के करीब बनी हुई है। पानी पर तेल भंडार में 25.3 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई और ओईसीडी स्टॉक में 2.9 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई, जबकि गैर-ओईसीडी भंडार में 18.3 मिलियन बैरल की गिरावट हुई।
- 2023 की तीसरी तिमाही में, कच्चे तेल के स्टॉक में 141.4 मिलियन बैरल की गिरावट हुई जबकि तेल उत्पाद के स्टॉक में 112.7 मिलियन बैरल की वृद्धि हुई, क्योंकि ओपेक+ देशों द्वारा आपूर्ति में कटौती रिफाइनरी गतिविधि में वृद्धि के साथ हुई।

ओपेक+ देशों द्वारा तेल उत्पादन (मिलियन बैरल प्रति दिन में)					
	सितंबर-23 में आपूर्ति	अक्टूबर-23 में आपूर्ति	लक्ष्य की तुलना में अक्टूबर में उत्पादन	अक्टूबर-23 में लक्ष्य	सतत क्षमता
अल्जीरिया	0.95	0.96	0	0.96	1
अंगोला	1.11	1.15	-0.31	1.46	1.11
कांगो	0.25	0.26	-0.05	0.31	0.27
इक्वेटोरियल गिनी	0.06	0.06	-0.06	0.12	0.06
गैबॉन	0.22	0.22	0.05	0.17	0.21
इराक	4.34	4.38	0.16	4.22	4.75
कुवैत	2.59	2.57	0.02	2.55	2.83
नाइजीरिया	1.35	1.35	-0.39	1.74	1.34
सऊदी अरब	9.03	9.01	0.03	8.98	12.16
यूएई	3.25	3.25	0.38	2.88	4.2
कुल ओपेक-10	23.15	23.21	-0.17	23.38	27.94
ईरान	3.14	3.1			3.8
लीबिया	1.15	1.13			1.22
वेनेजुएला	0.77	0.77			0.8
कुल ओपेक	28.21	28.21			33.76
अजरबैजान	0.49	0.49	-0.19	0.68	0.54
कजाकिस्तान	1.62	1.63	0.08	1.55	1.67
मेक्सिको	1.66	1.67			1.68
ओमान	0.8	0.8	0	0.8	0.85
रूस	9.5	9.53	0.08	9.45	9.98
अन्य	0.88	0.85	-0.2	1.06	0.87
कुल गैर-ओपेक	14.95	14.98	-0.24	13.54	15.58
ओपेक+ 19 कटौती					
कारार में	36.44	36.51	-0.4	36.92	41.84
कुल ओपेक+	43.16	43.19			49.34

स्रोत: आईईए



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, AWing 401 / 402 , 4th Floor ,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बाँबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोटीज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एगेंसिटी द्वारा सिन्क्रोटीज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

दिसक्लेमर: यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।